

## प्रेस विज्ञप्ति

**दिनांक: 24.02.2021**

**कम्पनियों का माल ले जाते समय रास्ते में चोरी करने करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्यों को थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 49 लैपटॉप, जीन्स, बैडशीट, एक स्विफ्ट डिजायर**

### **कार एवं अवैध असलहा कारतूस आदि बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 23.02.2021 को थाना खुर्जा नगर पुलिस क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ अभियुक्त कैलाश टी प्वाइंट कट के पास चौराहे पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में चोरी का माल लिए हुए खड़े हैं। इस सूचना पर थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए कम्पनियों का माल ले जाते समय रास्ते में चोरी करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्यों को कैलाश टी-प्वाइन्ट कस्बा खुर्जा से समय करीब शाम 19.25 बजे चोरी के 49 लैपटॉप, 29 जीन्स पैट, 23 बैडशीट, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार(टैक्सी) एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. भानूप्रताप पुत्र ओमबीर निवासी ग्राम भैसरोली थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. विककी पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गडडा कॉलोनी नहर फरीदाबाद हरियाणा।
3. रुदेस कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी नंगला फरीदपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।
4. सोहित पुत्र विजय शाह निवासी सै0-8 पटेलनगर दुर्गा मन्दिर के पास बल्लभगढ़ हरियाणा।
5. श्यामवीर पुत्र बालिस्टर निवासी ग्राम मभाना थाना मदनपुर जनपद शाहजहांपुर।
6. दीपक पुत्र पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम शहवाजपुर थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर(मुकदमावादी)

### **बरामदगी का विवरण- (बरामद सामान की कीमत करीब 26 लाख रुपये)**

- 1- चोरी के 49 लैपटॉप, 29 कपडे जीन्स पैट, 23 बैडशीट
- 2- 01 स्विफ्ट डिजायर कार (टैक्सी) डीएल-1जेबी-7385 (घटना में प्रयुक्त)
- 3- डाई (सील खोलने/बन्द करने में प्रयुक्त)
- 4- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।
- 5- एक छुरी

**अभियुक्त भानूप्रताप व दीपक दोनों गाड़ी चालक हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं तथा कंपनियों को जाने वाले सामान को रास्ते में चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देते थे एवं सामान को चोरी करने के उपरान्त अभियुक्तों द्वारा तैयार की गई डाई का प्रयोग कर कैन्टर में लदे सामान को पुनः सील बंद कर देते थे जिससे प्रतीत न हो कि कैन्टर में लदे कार्टूनों से सामान चोरी हुआ है।**

गिरफ्तार अभियुक्त चालक भानूप्रताप ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 22.02.2021 को वह और उसका साथी दीपक पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम शहवाजपुर थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर दो कैन्टर गाड़ी में झज्जर(हरियाणा) से फ्लिपकार्ट का सामान लेकर कोलकाता के लिए चले थे कि रात्रि में रास्ते में थाना खुर्जा नगर क्षेत्रांतर्गत खुर्जा बाईपास राधे शुद्ध भोजनालय पर खाना खाने के लिए रुके थे कि चालक भानूप्रताप व चालक दीपक द्वारा षड्यंत्र कर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कैन्टर में रखे कार्टून जिसमें लैपटॉप व कपडे चोरी कराने की घटना कारित की गयी थी एवं सामान को उसके अन्य साथी उक्त स्विफ्ट डिजायर कार(टैक्सी), जिसको दिल्ली से किराये पर करके लाये थे, में भरकर ले गये थे तथा अभियुक्त दीपक द्वारा गुमराह करने के उद्देश्य से कैन्टर से माल चोरी होने के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-157/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

**आज दिनांक 24.02.2021 को अभियुक्त दीपक को भी कस्बा खुर्जा से गिरफ्तार किया गया है।**

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-160/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 व मुअसं-161/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम:-**

1. श्री दीक्षित कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर
2. व0उ0नि0 श्री संदीप कुमार, उ0नि0 रामकुमार सिंह, उ0नि0 रविकुमारा
3. मुख्य आरक्षी परवेज कुमार, का0 भूरी सिंह, का0 विनोद कुमार, का0 चा0 अमित कुमार,